



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1993]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 15, 2011/अश्विन 23, 1933

No. 1993]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15, 2011/ASVINA 23, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2386(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के 24.300 कि.मी. से 148.300 कि.मी. तक के भू-खण्ड (कृष्णागिरि-वालाजाहपेट सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी, एलएएनएच, वेल्लोर-9, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के 24.300 कि. मी. से 148.300 कि. मी. तक के भूखण्ड (कृष्णागिरि-वलाजापेट खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वेल्लोर	1. वनियामबड़ी	गिरिसमुद्रम	206/8ए	निजी	भुशुक	15
				206/7	निजी	मकान स्थल	2
				206/10ए	निजी	भुशुक	61
				56	सरकारी	पोरमबोक	11
				55/22बी1	निजी	भुशुक	55
				137/12ए	निजी	भुशुक	16
				137/10बी1	निजी	भुशुक	45
				137/9एफ1	निजी	भुशुक	2
				137/9डी	निजी	मकान स्थल	3
				137/9ई1	निजी	मकान स्थल	22
				137/9ए1	निजी	भुशुक	2
				137/8डी1	निजी	भुशुक	5
				137/8बी1	निजी	मकान स्थल	3
		2. अम्बुर	(1) मिन्युर	143/3बी2	निजी	भुशुक	91
				143/3ए2	निजी	भुशुक	115
				143/2बी3बी	निजी	भुशुक	34
				145	सरकारी	पोरमबोक	60
				146/1ए1ए	निजी	भुशुक	40
				146/31	सरकारी	पोरमबोक	5
				146/3बी	निजी	मकान स्थल	28
				146/4बी	निजी	मकान स्थल	22
				146/5बी	निजी	मकान स्थल	22
				146/6बी	निजी	मकान स्थल	25
				146/7बी	निजी	मकान स्थल	8
				39/1ए13	निजी	भुशुक	69
				39/1ए12	निजी	भुशुक	15
			(2) अलांगकुप्पम	93/1ए2ए	निजी	भुशुक	33
				86/3सी7ए	निजी	भुशुक	15
				86/3सी6ए	निजी	मकान स्थल	18
				86/158	निजी	मकान स्थल	3
				86/172ए	निजी	मकान स्थल	13
				86/171ए	निजी	मकान स्थल	5
				86/170ए	निजी	मकान स्थल	11
				86/169	सरकारी	पोरमबोक	23

1	2	3	4	5	6	7	8
				86/168ए	निजी	मकान स्थल	10
				86/165	निजी	मकान स्थल	11
				86/164ए	निजी	मकान स्थल	10
				86/162	निजी	मकान स्थल	13
				86/161	निजी	मकान स्थल	12
				86/3सीए	निजी	भुशक	1
				95/2	निजी	भुशक	52
				98/25	निजी	मकान स्थल	8
				98/26	निजी	मकान स्थल	3
				98/23	सरकारी	पोरमबोक	14
				98/12बी	निजी	मकान स्थल	22
				98/10बी	निजी	मकान स्थल	6
				98/11बी	निजी	मकान स्थल	30
				98/14	सरकारी	पोरमबोक	28
				98/15	निजी	मकान स्थल	50
				98/43बी	निजी	मकान स्थल	30
				98/16	निजी	मकान स्थल	20
				97/2बी1बी	निजी	मकान स्थल	79
				97/2ए2बी	निजी	मकान स्थल	30
				97/2ए1बी	निजी	मकान स्थल	32
				97/1ए2	निजी	मकान स्थल	16
				97/1बी	निजी	मकान स्थल	23
				99/1बी	निजी	भुशक	80
				99/2बी	निजी	भुशक	515
			(3) पेरीयनकुप्पम	1/342	निजी	मकान स्थल	25
				1/265	सरकारी	पोरमबोक	8
				1/243ए	निजी	मकान स्थल	22
				1/241ए	निजी	मकान स्थल	22
				3/1ए2	सरकारी	भुशक	5
				3/218	सरकारी	पोरमबोक	18
				3/213	निजी	मकान स्थल	20
				3/217	निजी	मकान स्थल	22
				3/8	सरकारी	पोरमबोक	50
				3/220	निजी	मकान स्थल	45
				3/223	निजी	मकान स्थल	43
				3/226	निजी	मकान स्थल	44
				3/230	निजी	मकान स्थल	25
				3/231	निजी	मकान स्थल	25
				3/235	सरकारी	पोरमबोक	15

1	2	3	4	5	6	7	8
				3/236	निजी	मकान स्थल	18
				3/237	निजी	मकान स्थल	38
				3/244	सरकारी	पोरमबोक	2
				3/243	निजी	मकान स्थल	44
				3/245	निजी	मकान स्थल	4
				3/246	निजी	मकान स्थल	15
				3/247	निजी	मकान स्थल	30
				3/251	सरकारी	पोरमबोक	8
				3/252	निजी	मकान स्थल	18
				3/253	निजी	मकान स्थल	18
				3/255	निजी	मकान स्थल	35
				3/256	निजी	मकान स्थल	10
				3/257	निजी	मकान स्थल	22
				3/262	सरकारी	पोरमबोक	10
				3/308	निजी	मकान स्थल	5
				3/2	सरकारी	पोरमबोक	85
				3/6	सरकारी	पोरमबोक	105
				3/4	सरकारी	पोरमबोक	136
			(4) सोनुर	43/1ए	निजी	भुशक	253
				44/3ए	निजी	भुशक	48
				44/2ए	निजी	भुशक	37
				44/6ए	निजी	भुशक	15
				44/1ए	निजी	भुशक	102
				45/4ए	निजी	भुशक	673
				46/6	निजी	भुशक	522
				46/4	निजी	भुशक	111
				46/5सी	निजी	मकान स्थल	85
				46/5डी	निजी	मकान स्थल	85
				46/5ई	निजी	मकान स्थल	65
				46/5एफ	निजी	मकान स्थल	93
				46/5जी	निजी	मकान स्थल	40
				46/5एच	निजी	मकान स्थल	50
				46/5आई	निजी	मकान स्थल	112
				55/13ए	निजी	भुशक	22
				56	सरकारी	पोरमबोक	73
				61/2सी1	निजी	भुशक	40
				61/2बी1	निजी	भुशक	6
				65	सरकारी	पोरमबोक	132
				73/2बी	निजी	भुशक	354

1	2	3	4	5	6	7	8
				74/2बी	निजी	भुशक	1062
				74/1बी	निजी	भुशक	822
				75/2एफ2	निजी	भुशक	238
				75/2ई2	निजी	मकान स्थल	264
				75/2डी2	निजी	मकान स्थल	92
				75/2सी2	निजी	मकान स्थल	300
				75/1डी2	निजी	मकान स्थल	132
				75/1सी2	निजी	भुशक	465
				75/1बी2	निजी	मकान स्थल	95
				75/1ए2	निजी	मकान स्थल	37
				80/2बी2	निजी	भुशक	84
				80/2ए3बी	निजी	भुशक	58
				80/2ए3ए	निजी	भुशक	30
				80/2ए1बी	निजी	मकान स्थल	25
				80/4बी2	निजी	मकान स्थल	56
				80/4ए2	निजी	मकान स्थल	73
				80/3बी	निजी	भुशक	22
				80/31	सरकारी	पोरमबोक	19
				80/1	सरकारी	पोरमबोक	30
				81/41	सरकारी	पोरमबोक	24
				81/40	सरकारी	पोरमबोक	40
				81/16	सरकारी	पोरमबोक	57
				81/17	निजी	मकान स्थल	72
				81/18	निजी	मकान स्थल	80
				81/5बी	निजी	मकान स्थल	56
				81/14	सरकारी	पोरमबोक	20
				81/3बी2	निजी	भुशक	15
				81/3ए2	निजी	भुशक	61
				81/1बी	निजी	भुशक	115
				81/7	निजी	मकान स्थल	23
				82/1बी	निजी	भुशक	15
				82/2	सरकारी	पोरमबोक	25
				82/3	निजी	भुशक	77
				125	सरकारी	पोरमबोक	16
				126/1	सरकारी	पोरमबोक	47
				126/2	सरकारी	पोरमबोक	9
				127	सरकारी	पोरमबोक	63
				129	सरकारी	पोरमबोक	70
				131/3ए	निजी	मकान स्थल	148

1	2	3	4	5	6	7	8
				131/29ए	निजी	मकान स्थल	45
				131/30ए	निजी	मकान स्थल	72
				131/22	सरकारी	पोरमबोक	37
				131/15	सरकारी	पोरमबोक	14
				131/13ए	निजी	मकान स्थल	96
				131/8	निजी	मकान स्थल	14
				131/35ए	निजी	मकान स्थल	74
				131/9	निजी	मकान स्थल	26
				138/10ए	निजी	मकान स्थल	60
				138/9ए	निजी	मकान स्थल	6
				138/10ए	निजी	मकान स्थल	17
				139	सरकारी	पोरमबोक	17
				142/2ए	सरकारी	पोरमबोक	6
				142/23ए	निजी	मकान स्थल	15
				142/22ए	निजी	मकान स्थल	5
				142/25	सरकारी	पोरमबोक	16
				143/28ए	निजी	मकान स्थल	23
				143/27ए	निजी	मकान स्थल	13
				143/5ए	निजी	मकान स्थल	8
				143/2	सरकारी	पोरमबोक	30
			(5) कोमेश्वरम	80/1ए	निजी	नम	306
				80/2ए	निजी	नम	238
				79/1	निजी	नम	263
				77/1ए	निजी	नम	354
				77/2ए	निजी	नम	220
				69	सरकारी	पोरमबोक	123
				67/1	निजी	भुशक	507
				63	सरकारी	पोरमबोक	10
				62/2ए	निजी	भुशक	446
				61/1	निजी	भुशक	277
				61/2	निजी	भुशक	20
				58	सरकारी	पोरमबोक	155
				54	सरकारी	पोरमबोक	262
				55/1ए	निजी	भुशक	1265
				55/2ए	निजी	भुशक	1133
				55/4ए1	निजी	भुशक	210
				55/4बी1	निजी	भुशक	540
				51/2बी	निजी	भुशक	44
				51/2सी1	निजी	भुशक	464

1	2	3	4	5	6	7	8
				51/2डी1	निजी	भुशुक	500
				80	सरकारी	पोरमबोक	279
				88	सरकारी	पोरमबोक	1071
			(6) वेदापुडुपट्ट	153/1	निजी	भुशुक	603
				160/3ए1ए	निजी	मकान स्थल	76
				160/3ए1बी	निजी	मकान स्थल	30
				160/3ए2ए	निजी	मकान स्थल	11
				160/3ए2बी	निजी	मकान स्थल	22
				160/3ए2सी	निजी	मकान स्थल	11
				160/3बी	निजी	मकान स्थल	33
				160/1	निजी	मकान स्थल	55
				160/2बी	निजी	मकान स्थल	55
				160/5	निजी	मकान स्थल	75
				160/9	निजी	मकान स्थल	110
				160/10	निजी	मकान स्थल	44
				160/11	निजी	मकान स्थल	49
				160/12	निजी	मकान स्थल	39
				160/6	निजी	मकान स्थल	22
				160/7	निजी	मकान स्थल	100
				160/8	निजी	भुशुक	25
				160/13	निजी	मकान स्थल	113
				160/14	निजी	मकान स्थल	28
				160/15	निजी	मकान स्थल	18
				160/16	निजी	मकान स्थल	28
				160/17	निजी	मकान स्थल	36
				161/1	निजी	मकान स्थल	21
				163/1बी	निजी	मकान स्थल	70
				163/2बी	निजी	मकान स्थल	50
				163/3बी	निजी	मकान स्थल	45
				163/4बी	निजी	मकान स्थल	57
				163/5ए	निजी	भुशुक	140
				163/5बी	निजी	मकान स्थल	46
				163/5सी	निजी	मकान स्थल	34
				163/6	निजी	मकान स्थल	55
				163/7	निजी	मकान स्थल	33
				163/8	निजी	मकान स्थल	30
				163/9	निजी	मकान स्थल	57
				165/9	निजी	भुशुक	10
				165/1बी2	निजी	मकान स्थल	23

1	2	3	4	5	6	7	8
				165/11	निजी	मकान स्थल	13
				165/12	निजी	मकान स्थल	9
				165/1डी2	निजी	मकान स्थल	34
				165/13	निजी	मकान स्थल	10
				165/14	निजी	मकान स्थल	9
				165/15	निजी	मकान स्थल	12
				165/16	निजी	मकान स्थल	15
				165/17	निजी	मकान स्थल	9
				165/18	निजी	मकान स्थल	13
				165/10	निजी	मकान स्थल	55
				165/8ए2	निजी	मकान स्थल	13
				165/20	निजी	मकान स्थल	19
				165/19	निजी	मकान स्थल	55
				165/3बी	निजी	मकान स्थल	29
				165/4बी	निजी	मकान स्थल	28
				165/5बी	निजी	मकान स्थल	28
				165/6बी	निजी	मकान स्थल	28
				165/7ए2	निजी	मकान स्थल	21
				165/7बी2	निजी	मकान स्थल	43
				165/7सी2	निजी	मकान स्थल	63
				165/7ई2	निजी	मकान स्थल	17
				165/7एफ2	निजी	मकान स्थल	43
				165/7जी2	निजी	मकान स्थल	22
				166/1ए2	निजी	मकान स्थल	91
				166/4	निजी	मकान स्थल	33
				166/5	निजी	मकान स्थल	14
				166/2ए2	निजी	मकान स्थल	18
				166/2बी2	निजी	मकान स्थल	17
				166/2सी2	निजी	मकान स्थल	10
				166/2डी2	निजी	मकान स्थल	18
				166/3बी2	निजी	भुशुक	10
			(7) किलमुरुंगाई	127	सरकारी	पोरमबोक	449
				126/1बी	निजी	मकान स्थल	76
				126/7बी	निजी	मकान स्थल	56
				126/3बी	निजी	भुशुक	69
				126/4बी	निजी	भुशुक	11
				126/5बी	निजी	भुशुक	33
				126/6बी	निजी	भुशुक	15
				126/8ए2	निजी	मकान स्थल	15

1	2	3	4	5	6	7	8
				126/8बी2	निजी	भुरक	56
				121/4ए	निजी	भुरक	178
				121/4बी	निजी	भुरक	100
				125	सरकारी	पोरमबोक	25
		(8) बेंगली		78/1ए	निजी	भुरक	22
				78/1बी	निजी	भुरक	150
				78/3	सरकारी	पोरमबोक	23
				78/4	निजी	भुरक	25
		(9) कुलेधिगाई		27/1डी	निजी	भुरक	160
				27/1ए4	निजी	भुरक	25
				27/1ए3	निजी	भुरक	36
				27/1ए2	निजी	भुरक	15
				27/1ए1	निजी	भुरक	20
		(10) अगरामधेरी		535/1	निजी	भुरक	1050
				538/1बी1	निजी	भुरक	50
				538/1ए	निजी	भुरक	88
				538/2ए1	निजी	भुरक	245
				543	सरकारी	पोरमबोक	128
				544/1ए	निजी	भुरक	1050
				544/20	सरकारी	पोरमबोक	94
				544/31ए	निजी	मकान स्थल	75
				544/30	निजी	मकान स्थल	73
				544/32ए	निजी	मकान स्थल	82
				544/29	निजी	मकान स्थल	77
				544/35ए	निजी	मकान स्थल	91
				544/36ए	निजी	मकान स्थल	84
				544/37ए	निजी	मकान स्थल	89
				544/38ए	निजी	मकान स्थल	91
				544/39ए	निजी	मकान स्थल	84
				544/40ए	निजी	मकान स्थल	49
				544/41	सरकारी	पोरमबोक	61
				544/45	निजी	मकान स्थल	212
				545/1	निजी	भुरक	180
				546	सरकारी	पोरमबोक	168
				550/65ए	निजी	मकान स्थल	52
				550/64	निजी	मकान स्थल	103
				550/68	निजी	मकान स्थल	18
				550/67	सरकारी	पोरमबोक	114
				550/94	सरकारी	पोरमबोक	103

1	2	3	4	5	6	7	8
				550/93ए	निजी	मकान स्थल	30
				550/70	निजी	मकान स्थल	5
				592	सरकारी	पोरमबोक	61
				597	सरकारी	पोरमबोक	13
				641/1ए1ए	निजी	भुशुक	215
				641/1ए1बी	निजी	भुशुक	15
				641/1बी1	निजी	भुशुक	95
				641/4ए	निजी	भुशुक	138
				641/3	निजी	भुशुक	155
				645	निजी	भुशुक	1723
				646	निजी	भुशुक	357
				650/2ए	निजी	भुशुक	35
				650/2बी1	निजी	भुशुक	481
				650/2बी2ए	निजी	भुशुक	182
				650/2बी2बी	निजी	भुशुक	280
				650/2बी3	निजी	भुशुक	900
				656	सरकारी	पोरमबोक	112

[फा. सं. भारासाप्रा/एनएचडीपी-V/एमसी-II/बीओटी/केडब्ल्यू/एलए]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2011

S.O. 2386(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.46 on the stretch of land from Km.24.300 to Km.148.300 (Krishnagiri – Walajahpet Section) in District Vellore in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land,

Any person interested in the said land, may, within twenty-one (21) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose; under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the competent authority and Special District Revenue Officer, LANH, Vellore in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.24.300 to Km.148.300 (Krishnagiri - Walajahpet Section) on the National Highway No.46 in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vellore	1. Vaniyambadi	Girisamudram	206/8A	Private	Dry	15
				206/7	Private	House Site	2
				206/10A	Private	Dry	61
				56	Govt.	Poramboke	11
				55/22B1	Private	Dry	55
				137/12A	Private	Dry	16
				137/10B1	Private	Dry	45
				137/9F1	Private	Dry	2
				137/9D	Private	House Site	3
				137/9E1	Private	House Site	22
				137/9A1	Private	Dry	2
				137/8D1	Private	Dry	5
				137/8B1	Private	House Site	3
		2. Ambur	(1) Minnur	143/3B2	Private	Dry	91
				143/3A2	Private	Dry	115
				143/2B3B	Private	Dry	34
				145	Govt.	Poramboke	60
				146/1A1A	Private	Dry	40
				146/31	Govt.	Poramboke	5
				146/3B	Private	House Site	28
				146/4B	Private	House Site	22
				146/5B	Private	House Site	22
				146/6B	Private	House Site	25
				146/7B	Private	House Site	8
				39/1A13	Private	Dry	69
				39/1A12	Private	Dry	15
			(2) Alangkuppam	93/1A2A	Private	Dry	33
				86/3C7A	Private	Dry	15
				86/3C6A	Private	House Site	18
				86/158	Private	House Site	3
				86/172A	Private	House Site	13
				86/171A	Private	House Site	5

1	2	3	4	5	6	7	8
				86/170A	Private	House Site	11
				86/169	Govt	Poramboke	23
				86/168A	Private	House Site	10
				86/165	Private	House Site	11
				86/164A	Private	House Site	10
				86/162	Private	House Site	13
				86/161	Private	House Site	12
				86/3C5A	Private	Dry	1
				95/2	Private	Dry	52
				98/25	Private	House Site	8
				98/26	Private	House Site	3
				98/23	Govt	Poramboke	14
				98/12B	Private	House Site	22
				98/10B	Private	House Site	6
				98/11B	Private	House Site	30
				98/14	Govt	Poramboke	28
				98/15	Private	House Site	50
				98/43B	Private	House Site	30
				98/16	Private	House Site	20
				97/2B1B	Private	House Site	79
				97/2A2B	Private	House Site	30
				97/2A1B	Private	House Site	32
				97/1A2	Private	House Site	16
				97/1B	Private	House Site	23
				99/1B	Private	Dry	80
				99/2B	Private	Dry	515
			(3) Perlayankuppam	1/342	Private	House Site	25
				1/265	Govt	Poramboke	6
				1/243A	Private	House Site	22
				1/241A	Private	House Site	22
				3/1A2	Govt	Dry	5
				3/218	Govt.	Poramboke	18
				3/213	Private	House Site	20
				3/217	Private	House Site	22
				3/8	Govt	Poramboke	50
				3/220	Private	House Site	45
				3/223	Private	House Site	43
				3/226	Private	House Site	44

1	2	3	4	5	6	7	8
				3/230	Private	House Site	25
				3/231	Private	House Site	25
				3/235	Govt	Poramboke	15
				3/236	Private	House Site	18
				3/237	Private	House Site	38
				3/244	Govt	Poramboke	2
				3/243	Private	House Site	44
				3/245	Private	House Site	4
				3/246	Private	House Site	15
				3/247	Private	House Site	30
				3/251	Govt	Poramboke	8
				3/252	Private	House Site	18
				3/253	Private	House Site	18
				3/255	Private	House Site	35
				3/256	Private	House Site	10
				3/257	Private	House Site	22
				3/262	Govt	Poramboke	10
				3/308	Private	House Site	5
				3/2	Govt	Poramboke	85
				3/6	Govt	Poramboke	105
				3/4	Govt	Poramboke	136
			(4) Solur	43/1A	Private	Dry	253
				44/3A	Private	Dry	48
				44/2A	Private	Dry	37
				44/6A	Private	Dry	15
				44/1A	Private	Dry	102
				45/4A	Private	Dry	673
				46/6	Private	Dry	522
				46/4	Private	Dry	111
				46/5C	Private	House Site	85
				46/5D	Private	House Site	85
				46/5E	Private	House Site	65
				46/5F	Private	House Site	93
				46/5G	Private	House Site	40
				46/5H	Private	House Site	50
				46/5I	Private	House Site	112
				55/13A	Private	Dry	22
				56	Govt	Poramboke	73

1	2	3	4	5	6	7	8
				61/2C1	Private	Dry	40
				61/2B1	Private	Dry	6
				65	Govt	Poramboke	132
				73/2B	Private	Dry	354
				74/2B	Private	Dry	1062
				74/1B	Private	Dry	822
				75/2F2	Private	Dry	238
				75/2E2	Private	House Site	264
				75/2D2	Private	House Site	92
				75/2C2	Private	House Site	300
				75/1D2	Private	House Site	132
				75/1C2	Private	Dry	465
				75/1B2	Private	House Site	95
				75/1A2	Private	House Site	37
				80/2B2	Private	Dry	84
				80/2A3B	Private	Dry	58
				80/2A3A	Private	Dry	30
				80/2A1B	Private	House Site	25
				80/4B2	Private	House Site	56
				80/4A2	Private	House Site	73
				80/3B	Private	Dry	22
				80/31	Govt	Poramboke	19
				80/1	Govt	Poramboke	30
				81/41	Govt	Poramboke	24
				81/40	Govt	Poramboke	40
				81/16	Govt	Poramboke	57
				81/17	Private	House Site	72
				81/18	Private	House Site	80
				81/5B	Private	House Site	56
				81/14	Govt	Poramboke	20
				81/3B2	Private	Dry	15
				81/3A2	Private	Dry	61
				81/1B	Private	Dry	115
				81/7	Private	House Site	23
				82/1B	Private	Dry	15
				82/2	Govt	Poramboke	25
				82/3	Private	Dry	77
				125	Govt	Poramboke	16

1	2	3	4	5	6	7	8
				126/1	Govt	Poramboke	47
				126/2	Govt	Poramboke	9
				127	Govt	Poramboke	63
				129	Govt	Poramboke	70
				131/3A	Private	House Site	148
				131/29A	Private	House Site	45
				131/30A	Private	House Site	72
				131/22	Govt	Poramboke	37
				131/15	Govt	Poramboke	14
				131/13A	Private	House Site	96
				131/8	Private	House Site	14
				131/35A	Private	House Site	74
				131/9	Private	House Site	26
				138/10A	Private	House Site	60
				138/9A	Private	House Site	6
				138/10A	Private	House Site	17
				139	Govt	Poramboke	17
				142/2A	Govt	Poramboke	6
				142/23A	Private	House Site	15
				142/22A	Private	House Site	5
				142/25	Govt	Poramboke	16
				143/28A	Private	House Site	23
				143/27A	Private	House Site	13
				143/5A	Private	House Site	8
				143/2	Govt	Poramboke	30
			(5) Kommeswaram	80/1A	Private	Wet	306
				80/2A	Private	Wet	238
				79/1	Private	Wet	263
				77/1A	Private	Wet	354
				77/2A	Private	Wet	220
				69	Govt	Poramboke	123
				67/1	Private	Dry	507
				63	Govt	Poramboke	10
				62/2A	Private	Dry	446
				61/1	Private	Dry	277
				61/2	Private	Dry	20
				58	Govt	Poramboke	155
				54	Govt	Poramboke	262

1	2	3	4	5	6	7	8
				55/1A	Private	Dry	1265
				55/2A	Private	Dry	1133
				55/4A1	Private	Dry	210
				55/4B1	Private	Dry	540
				51/2B	Private	Dry	44
				51/2C1	Private	Dry	464
				51/2D1	Private	Dry	500
				60	Govt.	Poramboke	279
				88	Govt.	Poramboke	1071
			(6) Vadapudupattu	153/1	Private	Dry	603
				160/3A1A	Private	House Site	76
				160/3A1B	Private	House Site	30
				160/3A2A	Private	House Site	11
				160/3A2B	Private	House Site	22
				160/3A2C	Private	House Site	11
				160/3B	Private	House Site	33
				160/1	Private	House Site	55
				160/2B	Private	House Site	55
				160/5	Private	House Site	75
				160/9	Private	House Site	110
				160/10	Private	House Site	44
				160/11	Private	House Site	49
				160/12	Private	House Site	39
				160/6	Private	House Site	22
				160/7	Private	House Site	100
				160/8	Private	Dry	25
				160/13	Private	House Site	113
				160/14	Private	House Site	28
				160/15	Private	House Site	18
				160/16	Private	House Site	28
				160/17	Private	House Site	36
				161/1	Private	House Site	21
				163/1B	Private	House Site	70
				163/2B	Private	House Site	50
				163/3B	Private	House Site	45
				163/4B	Private	House Site	57
				163/5A	Private	Dry	140
				163/5B	Private	House Site	46

1	2	3	4	5	6	7	8
				163/5C	Private	House Site	34
				163/6	Private	House Site	55
				163/7	Private	House Site	33
				163/8	Private	House Site	30
				163/9	Private	House Site	57
				165/9	Private	Dry	10
				165/1B2	Private	House Site	23
				165/11	Private	House Site	13
				165/12	Private	House Site	9
				165/1D2	Private	House Site	34
				165/13	Private	House Site	10
				165/14	Private	House Site	9
				165/15	Private	House Site	12
				165/16	Private	House Site	15
				165/17	Private	House Site	9
				165/18	Private	House Site	13
				165/10	Private	House Site	55
				165/8A2	Private	Dry	13
				165/20	Private	House Site	19
				165/19	Private	House Site	55
				165/3B	Private	House Site	29
				165/4B	Private	House Site	28
				165/5B	Private	House Site	28
				165/6B	Private	House Site	28
				165/7A2	Private	House Site	21
				165/7B2	Private	House Site	43
				165/7C2	Private	House Site	63
				165/7E2	Private	House Site	17
				165/7F2	Private	House Site	43
				165/7G2	Private	House Site	22
				166/1A2	Private	House Site	91
				166/4	Private	House Site	33
				166/5	Private	House Site	14
				166/2A2	Private	House Site	18
				166/2B2	Private	House Site	17
				166/2C2	Private	House Site	10
				166/2D2	Private	House Site	18
				166/3B2	Private	Dry	10

1	2	3	4	5	6	7	8
			(7) Kilmurungai	127	Govt.	Poramboke	449
				126/1B	Private	House Site	76
				126/7B	Private	House Site	56
				126/3B	Private	Dry	69
				126/4B	Private	Dry	11
				126/5B	Private	Dry	33
				126/6B	Private	Dry	15
				126/8A2	Private	House Site	15
				126/8B2	Private	Dry	55
				121/4A	Private	Dry	176
				121/4B	Private	Dry	100
				125	Govt.	Poramboke	25
			(8) Vengili	78/1A	Private	Dry	22
				78/1B	Private	Dry	150
				78/3	Govt.	Poramboke	23
				78/4	Private	Dry	25
			(9) Kulithigai	27/1D	Private	Dry	160
				27/1A4	Private	Dry	25
				27/1A3	Private	Dry	36
				27/1A2	Private	Dry	15
				27/1A1	Private	Dry	20
			(10) Agaramcheri	535/1	Private	Dry	1050
				536/1B1	Private	Dry	50
				536/1A	Private	Dry	86
				536/2A1	Private	Dry	245
				543	Govt.	Poramboke	128
				544/1A	Private	Dry	1050
				544/20	Govt.	Poramboke	94
				544/31A	Private	House Site	75
				544/30	Private	House Site	73
				544/32A	Private	House Site	82
				544/29	Private	House Site	77
				544/35A	Private	House Site	91
				544/36A	Private	House Site	84
				544/37A	Private	House Site	89
				544/38A	Private	House Site	91
				544/39A	Private	House Site	84
				544/40A	Private	House Site	49

1	2	3	4	5	6	7	8
				544/41	Govt.	Poramboke	61
				544/45	Private	House Site	212
				545/1	Private	Dry	180
				546	Govt.	Poramboke	168
				550/65A	Private	House Site	52
				550/64	Private	House Site	103
				550/68	Private	House Site	16
				550/67	Govt.	Poramboke	114
				550/94	Govt.	Poramboke	103
				550/93A	Private	House Site	30
				550/70	Private	House Site	5
				592	Govt.	Poramboke	61
				597	Govt.	Poramboke	13
				641/1A1A	Private	Dry	215
				641/1A1B	Private	Dry	15
				641/1B1	Private	Dry	95
				641/4A	Private	Dry	138
				641/3	Private	Dry	155
				645	Private	Dry	1723
				646	Private	Dry	357
				650/2A	Private	Dry	35
				650/2B1	Private	Dry	481
				650/2B2A	Private	Dry	182
				650/2B2B	Private	Dry	280
				650/2B3	Private	Dry	900
				656	Govt.	Poramboke	112

[F. No. NHAI/NHDP-V/MC-II/BOT/KW/LA]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.